

BOOSTS ENERGY

REDUCE TIREDNESS

STRONG IMMUNITY

IMPROVES FOCUS

BOOSTS HEMOGLOBIN LEVEL

BOOSTS PRODUCTION OF RED BLOOD CELLS

Our body needs an array of essential minerals and vitamins to stay fit. Iron is one of the most important nutrients that we need to keep our body functioning. These are important for keeping body active and healthy.

WHY DOES OUR BODY NEED IRON?

Iron deficiency is the most common nutritional deficiency worldwide and the leading cause of anemia (known as iron deficiency anemia). In case of iron deficiency, the body can't produce enough hemoglobin for red blood cells which is essential for the transportation of oxygen to other parts of the body. Our body needs iron to produce enough healthy red blood cells.

Key Ingredients:

IRON: Essential nutrient for immunity, Blood sugar level, Energy, Heart, & overall body functioning

ZINC: Boosts immunity, metabolism & improves overall functioning of the body

VITAMIN B12: It helps to keep your body's nerve and blood cells healthy while contributing to DNA synthesis

VITAMIN C: Strengthens body's immunity, improves antioxidant function & boosts daily iron absorption

WHAT PROBLEMS OCCUR IN DEFICIENCY OF ANEMIA?



Dose

Take one tablet daily with meal

or as directed by the healthcare professional.

ऊर्जा को बढ़ावा
देने में मदद करता है।

थकान
कम करने में मदद करता है।

रोग प्रतिरोधक क्षमता
को मजबूत करने में मदद करता है।

फोकस को बेहतर
बनाने में मदद करता है।



हीमोग्लोबिन स्तर
को बढ़ाने में मदद करता है

लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन
को बढ़ावा देने में मदद करता है।



हमारे शरीर को फिट रहने के लिए आवश्यक खनिजों और विटामिनों की आवश्यकता होती है। आयरन सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में से एक है जिसकी हमें अपने शरीर को कार्यशील बनाए रखने के लिए आवश्यकता होती है। यह शरीर को सक्रिय और स्वस्थ रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

हमारे शरीर को आयरन की आवश्यकता क्यों होती है?

शरीर में आयरन की कमी दुनिया भर में सबसे ज्यादा आम तौर पर पाए जाने वाली पोषण संबंधी कमी में से एक है और यह एनीमिया (आयरन की कमी वाले एनीमिया के रूप में जाना जाता है) का प्रमुख कारण है। आयरन की कमी के मामले में, शरीर लाल रक्त कोशिकाओं के लिए पर्याप्त हीमोग्लोबिन का उत्पादन नहीं कर पाता है जो शरीर के अन्य भागों में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए आवश्यक है। हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करने के लिए आयरन की आवश्यकता होती है।

मुख्य सामग्री

आयरन: रोग प्रतिरोधक क्षमता, रक्त शर्करा स्तर, ऊर्जा, हृदय और संपूर्ण शरीर के कामकाज के लिए आवश्यक पोषक तत्व।

जिंक: रोग प्रतिरोधक क्षमता, चयापचय को बढ़ाता है और शरीर के सम्पूर्ण कामकाज में सुधार करता है।

विटामिन बी12: यह डीएनए संश्लेषण में योगदान करते हुए आपके शरीर की तंत्रिका और रक्त कोशिकाओं को स्वस्थ रखने में मदद करता है।

विटामिन सी: शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है, एंटीऑक्सीडेंट और दैनिक आयरन अवशोषण को बढ़ाता है।

एनीमिया की कमी से कौन सी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं?



डोज़

प्रतिदिन भोजन के साथ एक टैबलेट या चिकित्सक द्वारा निर्देशानुसार।